

प्रेस नोट

जनपद रामपुर

दिनांक 02-10-2021

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-@rampurpolice

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना टाण्डा:- ई-कचरा जला रहे 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार, मौके से 03 गैस सिलेन्डर मय पाईप गैस गन व करीब 01 कुन्तल 20 किलो ई-कचरा बरामद-

दिनांक 01-10-2021 को थाना टाण्डा, रामपुर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम जालपुर सरकारी ट्यूबवैल/आम के बाग के पास में ई-कचरा जला रहे 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। मौके से तीन गैस सिलेन्डर मय पाईप गैस गन व करीब 01 कुन्तल 20 किलो ई-कचरा बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01- दानिश पुत्र कलवा निवासी मोहल्ला बगिया वाला कस्बा व थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

02- आसिफ पुत्र अय्यूब निवासी मोहल्ला झादे वाला कस्बा व थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी-

01- तीन गैस सिलेन्डर मय पाईप गैस गन,

02- करीब 01 कुन्तल 20 किलो ई-कचरा बरामद।

कार्यवाही-

मु0अ0सं0-357/2021 धारा 269/270 भादवि व 3/8 उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल (उपयोग की विनियमन और निपटान) अधिनियम।

थाना मिलक:- छेडछाड करने व जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार-

अभियुक्त नासिर पुत्र आजम निवासी ग्राम खाता चिन्तामन थाना मिलक, रामपुर द्वारा एक लडकी के साथ छेडछाड करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिनांक 29-09-2021 को थाना मिलक, रामपुर पर मु0अ0सं0-373/21 धारा 354ख,506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 02-10-2021 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त नासिर उपरोक्त को बिलासपुर रोड ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना सैफनी:-ग्राम दिव्या नंगला में लाठी-डण्डों व ईट-पत्थरों से एक-दूसरे के साथ मारपीट करने में दो पक्षों के 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 01-10-2021 को एक पक्ष के दिलीप, कुलदीप, विवेक पुत्रगण वीर सिंह निवासीगण ग्राम दिव्या नंगला थाना सैफनी, रामपुर तथा दूसरे पक्ष के राजू, राजकुमार, दीपक सागर पुत्रगण नेकपाल व छत्रपाल पुत्र सूरजसिंह निवासीगण ग्राम दिव्या नंगला थाना सैफनी, रामपुर की आपस में किसी बात को लेकर पहले कहासुनी हो गयी थी। इसी बात को लेकर बाद में दोनों पक्षों के लोगों द्वारा लाठी-डण्डों व ईट-पत्थरों से एक-दूसरे के साथ मारपीट की गयी।

इस सम्बन्ध में दिनांक 01-10-2021 को वादी दीपक सागर पुत्र नेकपाल निवासी ग्राम दिव्या नंगला थाना सैफनी, रामपुर की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना सैफनी पर मु0अ0सं0-44/21 धारा 323,307 भादवि बनाम दिलीप आदि 03 नफर तथा वादिनी श्रीमती इन्द्रावती पत्नी स्व0 श्री वीर सिंह निवासी ग्राम दिव्या नंगला थाना सैफनी, रामपुर की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना सैफनी पर मु0अ0सं0-45/21 धारा 323,307 भादवि बनाम राजू आदि 04 नफर पंजीकृत हुआ था।

आज दिनांक 02-10-2021 को थाना सैफनी, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त घटना से सम्बन्धित 03 अभियुक्तगण को ग्राम दिव्या नंगला के पास से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01- दिलीप पुत्र वीर सिंह,

02- विवेक पुत्र वीर सिंह,

03- दीपक सागर पुत्र नेकपाल निवासीगण ग्राम दिव्या नंगला थाना सैफनी जनपद रामपुर।